

रवि ने 60,000 रुपये का निवेश सावधि जमा बैंक खाते में किया जो कि आर्ध-वार्षिक ब्याज का भुगतान करती है। रवि के पास पुनर्निवेश का एक विकल्प है जहां राशि रु 85,413.31 हो जाएगी। बैंक द्वारा दी जाने वाली वार्षिक ब्याज दर की गणना करें?

5. Write short notes on :

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) Digital wallet

डिजिटल वॉलेट

(b) Health Insurance

स्वास्थ्य बीमा

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5508A

H

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : VAC

Semester : II/IV

Duration : 2 Hours 30 min

Maximum Marks : 70

(Part A=30 & Part B=40 marks)

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

PART A

(30 marks)

1. This Part carries 4 questions in total.

इस भाग में कुल 4 प्रश्न हैं।

2. Question No. 1 is compulsory.

प्रथम प्रश्न अनिवार्य है।

3. Attempt any 2 out of the remaining 3 questions.

शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

4. All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

5. Use of Simple Calculator is allowed.

साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है।

किसी व्यक्ति को अपने वित्त का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले विभिन्न निवेश उत्पाद क्या हैं?

3. Explain the concept of annuity. Find out the amount and present value of an annuity of Rs. 900 payable at the end of each year for 12 years if the rate of interest is 6% p.a.

वार्षिकी की अवधारणा को समझाइए। यदि ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है तो 2 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 900 रु. का भुगतान किया जाएगा तो वार्षिकी की राशि और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें।

4. Ravi invests Rs. 60,000 into a bank fixed deposit which pays semi-annual interest. Ravi has an option of reinvestment where the amount becomes Rs. 85,413.31. Calculate the annual rate of interest given by the bank?

5508A

6

PART B

(40 marks)

1. Answer any **Four** Questions.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2. Each question carries **10** marks.

प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. Explain the different modes of digital payment. How can we protect ourselves from online frauds.

डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों को समझाइए। हम स्वयं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं?

2. What are the different investment products offered by various financial institutions to help an individual manage his/her finances.

5508A

3

1. Write short notes on **any two** of three following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Mutual Funds

म्यूचुअल फंड्स

- (b) Time Value of Money

‘टाइम वैल्यू ऑफ मनी’

- (c) Permanent Account number (PAN)

स्थायी खाता संख्या

2. What is the New Tax Regime? How is it different from the Old Tax Regime? (10)

नई कर व्यवस्था क्या है? यह पुरानी कर व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है?

P.T.O.

3. What are the steps to be followed for management of spending? (10)

व्यय-प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

4. From the following particulars of Ms. Monica (aged 35 years) who is a salaried employee, compute her total income and tax liability under the old tax regime and new tax regime for the financial year 2022-23 : (10)

निम्नलिखित विवरणों से, सुश्री मोनिका (उम्र 35 वर्ष) जो एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनकी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के तहत उनकी कुल आय और कर देनदारी की गणना कीजिए :

Gross Salary Rs. 18,00,000

सकल आय

Contribution to Provident Fund Rs. 1,00,000

भविष्य निधि में योगदान

Contribution to P.P.F. Rs. 20,000

पी.पी.एफ. में योगदान

Premium paid for health insurance policy of her family Rs. 22,000

उसके परिवार का स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम

Interest on fixed deposit received Rs. 15,000

सावधि जमा पर ब्याज प्राप्तियाँ